


**GROUND FLOOR PLAN
(TOWER-2)**



**GROUND FL. ENVELOPE PLAN
TOWER - 2**

AREA CHART

GROUND FLOOR PLAN = 638.01 Sqm

SERVICES

- 1. 1.085 X 0.60 = .651 X 4 = 2.604 Sqm (C.B)
 - 2. 0.785 X 0.635 = 0.498 X 2 = 0.996 Sqm (SER. SHAFT)
 - 5. 12.65 X 2.10 = 26.565 Sqm (LIFT LOBBY)
 - 6. 2.81 X 2.07 = 5.82 Sqm (LIFT LOBBY)
 - 7. 3.30 X 5.40 = 17.82 Sqm (FIRE STAIR CASE)
 - 8. 2.0 X .60 = 1.20 X 2 = 2.40 Sqm (BOX WINDOW)
 - 9. 2.17 X 0.67 X 2 = 2.90 (SER. SHAFT)
- Total = 59.105 Sqm

भवन प्रकल्प, नोएडा
 निदेश-सावटी, अक्टोबर २०१३
 प्रकल्प की शर्तों के अनुसार कार्य करने हेतु मंजूरी है।
 २२/०३/१३
 पत्र संख्या: २२/०३/१३
 दिनांक: २२/०३/१३
 प्रकल्प: २२/०३/१३
 (भवन प्रकल्प)

(2) आर्किटेक्ट को अधिमोचन प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करते समय विकास प्रयत्नक (आवास) से विद्यमान अनुसार तमच इच्छित प्राप्तकर प्रस्तुत करना होगा।

Map for proposed Building is as per Bye Laws. Submitted for approval please.

Architect

भवन के लगभग १०० मीटर तक की दूरी तक शूटिंग करना पड़ेगा है तथा अधिक अतिक्रमण को तोड़ना भी पड़ेगा है। अतः भवन मानचित्र को अनुसार ही निर्माण करे, अतिक्रमण न करे।

Encroachments on front, Rear & Side setbacks invite heavy penalties. Encroachments could be demolished also Please avoid encroachments construct building as per Sanctioned Map.

OPENING SCHEDULE					
S.No.	TYPE	WIDTH	SL	LL	REMARKS
1.	D	.90	-	2.1	DOOR
2.	D1	.75	-	2.1	DOOR
3.	D2	.60	-	2.1	DOOR
4.	D3	1.20	-	2.1	DOOR
5.	W	.60	.90	2.7	WINDOW
6.	W1	.75	.90	2.7	WINDOW
7.	W2	.90	.90	2.7	WINDOW
8.	W3	2.40	.90	2.7	WINDOW
9.	W4	1.50	.90	2.7	WINDOW
10.	W5	2.08	.90	2.7	WINDOW
11.	W6	2.25	.90	2.7	WINDOW
12.	W7	1.0	.90	2.7	WINDOW
13.	W8	4.20	.90	2.7	WINDOW

NOTE-

- 1. THE DIMENSION AREA STATEMENTS SHOWN IN THE DRAWINGS HAS BEEN CHECKED & VERIFIED BY ARCHITECT AND OWNER
- 2. OWNER SHALL BE RESPONSIBLE/ LIABLE FOR ANY CHANGE IN THE DIMENSION / AREA STATEMENT.
- 3- ALL APARTMENTS ARE AIR-CONDITIONED, WHEREVER THE LIGHTING AND VENTILATION IS NOT SUFFICIENT,ARTIFICIAL LIGHTING AND MECHANICAL VENTILATION SHALL BE PROVIDED AS PER NBC.

PROJECT

Proposed Revised Group Housing Building on PLOT NO.GH -02 , SEC - 143 NOIDA FOR - LOGIX CITY DEVELOPERS PVT.LTD.

TITLE TOWER- 2 GROUND FLOOR PLAN & AREA CALCULATION (POCKET-1)

REVISED SUBMISSION DRAWING

SCALE 1:100 & 1:200	DATE 04-03-13
JOB NO. 1154	DRG.NO. 06
ARCHITECTS SIGN RAJIV GOEL CA/76/2361	OWNERS SIGN For Logix City Developers Pvt. Ltd. Authorised Signatory

CONSULTANT
R.N.Gupta & Associates
 Consulting Engineers, Architects & Valuers
 E-1, Sector-55, Noida
 Phones - (+120) 2582224, 2582773
 Fax - (+120) 4321556
 email - info@rngcorp.com